

Appendix A-'II'

आवेदन पत्र APPLICATION FORM

(स्पष्ट अक्षरों में भरा जाय एवं स्पष्ट में दोनो तरफ आगे एवं पिछे प्रिंट ले)
(TO BE FILLED IN BLOCK LETTERS AND PRINT ALL PAGES BACK TO BACK)

हाल ही की पासपोर्ट आकार
की स्व-सत्यापित फोटो

Recent passport size
self-attested photo

आवेदन पद/Name of the post applied for:

संदर्भ विज्ञापन संख्या _____ रोजगार समाचार दिनांक _____
Ref : Advertisement No. _____ of Employment News dated _____.

1.	आवेदक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) Name of the Applicant (in Block Letters)	:	
2.	(a) पिता/पति का नाम Father's/Husband's Name	:	
	(b) माता का नाम Mother's Name	:	
3.	स्थायी पता Permanent Address	:	
4.	पत्राचार के लिए पता Address for correspondence	:	
5.	पहचान प्रमाणपत्र का प्रकार एवं संख्या Proof of Identity (Aadhar/PAN/Voter ID)	:	
6.	(a) जन्म तिथि Date of Birth	:	
	(b) आवेदन करने की अंतिम तारीख को आयु Age as on closing date	:	_____ वर्ष _____ महीने _____ दिन _____ Yrs _____ months _____ days
	(c) आयु में छूट यदि है Age relaxation claimed, if any (यदि हों तो श्रेणी का उल्लेख करे) (if yes, specially mention name of quota)	:	हाँ / ना Yes/No
7.	रोजगार कार्यालय जहाँ पंजीकृत हैं Name of Employment Exchange where registered	:	
8.	रोजगार कार्यालय पंजीकरण संख्या Employment Exchange Registration No.	:	
9.	राष्ट्रीयता Nationality	:	
10.	क्या अनुसूचित जाती/अनुसूचित जनजाती/ अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/पूर्व सैन्य कर्मी से संबधित हैं (यदि हां तो श्रेणी) Whether belongs to SC/ST/OBC/EWS/ Ex- Serviceman (if yes, mention the category)	:	हाँ / ना Yes/No श्रेणी /Category
11.	लिंग (पुरुष/स्त्री) Sex (Male / Female)	:	
12.	ई मेल पता Email ID	:	
13.	मोबाइल संख्या Mobile No.	:	

14. शैक्षणिक योग्यता Educational Qualification					
क्रम सं. Sl. No.	शैक्षणिक योग्यता Educational Qualification	युनीवर्सिटी / बोर्ड University/ Board	पास करने का वर्ष Year of passing	विषय Subject	प्राप्तांक Marks (%)
(a)	Class 10 standards				
(b)					
(c)					
(d)					

15. अनुभव, यदि कोई हो: Experience, if any						
क्रम सं. Sl. No.	पदनाम Post held	भत्ते Emoluments (Monthly)	कब से From	कब तक To	नियोग का पता Name & address of employer	कार्य का प्रकार Nature of Work
(a)						

16.	संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण /Details of Certificates Enclosed (Tick relevant)	:	(a) POI (b) Proof of DOB (c) Caste/Category Certificate (d) Education qualifications (One/Two/Three) (e) Work Experience Certificate
17.	कोई और जानकारी यदि हो /Details of any other information	:	

घोषणा DECLARATION

मैं घोषित करता/करती हूँ कि उपर दिया गया विवरण मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है। मेरे द्वारा दिया गया विवरण असत्य पाए जाने पर मेरा आवेदन/भर्ती बिना सूचना के अमान्य और रद्द माना जाएगा। I do hereby declare that the particulars furnished above by me are correct to the best of my knowledge and belief. In the event of any information being found to be incorrect at a later date, my candidature / appointment may be cancelled / terminated without any notice.

बाँय हाथ के अंगूठ का निशान (पुरुष आवेदकों के लिए)
Left thumb impression of male and
दाँय हाथ के अंगूठ का निशान (महिला आवेदकों के लिए)
Right thumb impression of female candidate



स्थान / Place

आवेदक का हस्ताक्षर
(Signature of Applicant)

तिथि / Date

कार्यालय के उपयोग हेतु /For official use only

प्रवेश पत्र / ADMIT CARD
(दो प्रतिओ में In duplicate)

(स्पष्ट अक्षरों में भरा जाय एवं स्पष्ट में दोनो तरफ आगे एवं पिछे प्रिंट ले)
(TO BE FILLED IN BLOCK LETTERS AND PRINT ALL PAGES BACK TO BACK)

हाल का पासपोर्ट साइज
फोटो सेल्फ अटेस्टेड

Recent passport size
photo self-attested

Application No: _____
(कार्यालय के उपयोग हेतु /For official use only)

पदनाम जिसके लिए आवेदन दिया गया है।
Name of the post applied for (in Bold letters) :

संदर्भ विज्ञापन संख्या _____ रोजगार समाचार दिनांक _____
Ref : Advertisement No. _____ of Employment News dated _____

1. आवेदक का नाम(स्पष्ट अक्षरों में) : _____
Name of the Applicant
(in full & Block Letters)
2. पिता/पति का नाम : _____
Father's / Husband's Name
3. ई मेल पता : _____
Email ID
4. लिखित/टंकण परीक्षा का दिनांक : _____
और समय(कार्यालय के उपयोग हेतु)
Date & Time of Written Test / Tying
test (for official use only)
5. लिखित/टंकण परीक्षा का पता : _____
(कार्यालय के उपयोग हेतु)
Venue of Written Test / Typing Test
(for official use only)
6. आपातकालीन मोबाइल संख्या : _____
Emergency Mobile Number

बाँये हाथ के अंगूठ का निशान (पुरुष आवेदकों के लिए)
Left thumb impression of male
दाँये हाथ के अंगूठ का निशान (महिला आवेदकों के लिए)
Right thumb impression in case of female candidate



आवेदक का हस्ताक्षर (Signature of Candidate)

नोट : Note

1. आवेदन प्रवेश पत्र की दो प्रति आवेदक द्वारा, सीरीयल 1, 2, 3 एवं 6 प्रविष्टियों को भरकर जमा की जाये।
Admit card should be submitted in duplicate duly filled in Sl. 1, 2, 3 & 6 by the applicant.

ANNEXURE-I

FORM OF CERTIFICATE TO BE SUBMITTED BY CENTRAL GOVERNMENT CIVILIAN EMPLOYEES SEEKING AGE-RELAXATION (To be filled by the Head of the Office or Department in which the candidate is working).

1. It is certified that *Shri/Smt./Km. _____ is a Central Government Civilian employee holding the post of _____ in the pay scale of Rs. _____ with not less than 3 years regular service in the grade as on closing date.
2. There is no objection to his appearing for the _____ Examination 2022 and/or skill test of the Examination. The individual will be relieved on his selection for the post.

Signature

Name _____

Office seal

Place:

Date :

(*Please delete the words which are not applicable.)

ANNEXURE-II

(FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA)

This is to certify that Shri /Smt./Kumari _____ son/daughter of _____ of village/town _____ in District/Division _____ in the State/Union Territory _____ belongs to the _____ Community which is recognized as a backward class under the Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment's Resolution No. _____ dated _____*.

Shri/Smt./Kumari _____ and/or his/her family ordinarily reside(s) in the _____ District/Division of the _____ State/Union Territory.

This is also to certify that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Scheduled to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93-Estt (SCT) dated 8.9.1993**.

District Magistrate

Deputy Commissioner etc.

Dated:

Seal:

* The authority issuing the certificate may have to mention the details of Resolution of Government of India, in which the caste of the candidate is mentioned as OBC.

** As amended from time to time.

ANNEXURE-III

UNDERTAKING TO BE GIVEN BY THE CANDIDATE WHO IS AN EX-SERVICEMAN.

I understand that, if selected on the basis of the recruitment/examination to which the application relates, my appointment will be subject to my producing documentary evidence to the satisfaction of the Appointing Authority that I have been duly released/retired/discharged from the Armed Forces and that I am entitled to the benefits admissible to Ex-Servicemen in terms of the Ex-servicemen Re-employment in Central Civil Services and Posts rules, 1979, as amended from time to time.

I also understand that I shall not be eligible to be appointed to a vacancy reserved for Ex-SM in regard to the recruitment covered by this examination, if I have at any time prior to such appointment, secured any employment on the civil side (including Public Sector Undertakings, Autonomous Bodies/Statutory Bodies, Nationalized Banks, etc.) by availing of the benefits admissible to Ex-SM.

I further submit the following information:

- a) Date of appointment in Armed Forces _____
- b) Date of discharge _____
- c) Length of service in Armed Forces _____
- d) My last Unit / Corps _____

(Signature of the Candidate)

Place:

Date: